

जनाब यूसुफ का ख्वाब

इंजील : मत्ता 1:18-25

इस तरह मसीह ईसा^(अ.स) की पैदाइश हुई। ईसा^(अ.स) की माँ का नाम बीबी मरयम था। उनकी शादी जनाब यूसुफ से तय हुई थी, लेकिन इससे पहले वो एक दूसरे के करीब आते, बीबी मरयम अल्लाह ताअला की कुदरत से हामिला हुई।⁽¹⁸⁾ बीबी मरयम के होने वाले शौहर, जनाब यूसुफ, एक अच्छे आदमी थे। वो नहीं चाहते थे कि बीबी मरयम लोगों के सामने बेइज्जत हों। तो उन्होंने बीबी मरयम को चुपके से कहीं दूर भेजने का फैसला किया।⁽¹⁹⁾

जब वो ये सब करने के बारे में सोच रहे थे तो अल्लाह ताअला की तरफ से एक फ़रिश्ता उनके ख्वाब में आया और कहा, “जनाब यूसुफ, दाऊद की औलाद, बीबी मरयम को अपनी बीवी बनाने से मत घबराओ। उनके पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह ताअला की कुदरत से है।⁽²⁰⁾ वो एक लड़के को पैदा करेगी और तुम उसका नाम ईसा रखना। इस नाम का मतलब है ‘बचाने वाला।’ तुम उसका यही नाम रखना क्योंकि वो अपने लोगों को गुनाहों से बचाएगा।”⁽²¹⁾

ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ताअला ने अपने नबियों से ये कहा था:⁽²²⁾ “देखो, कुँवारी लड़की हामिला होगी और वो एक लड़के को पैदा करेगी। लोग उस लड़के को ‘इम्मानूएल’ भी पुकारेंगे।”^[a] (इब्रानी ज़बान में इसका मतलब है “अल्लाह ताअला हमारे साथ है।”)⁽²³⁾

जब जनाब यूसुफ की आँख खुली, तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा फ़रिश्ते ने उनसे कहा था। जनाब यूसुफ ने बीबी मरयम से शादी कर ली,⁽²⁴⁾ लेकिन जब तक उन्होंने उस बच्चे को पैदा नहीं किया वो उनके करीब नहीं गए। जनाब यूसुफ ने बच्चे का नाम ईसा रखा।⁽²⁵⁾

[a] तौरैत : याशायाह 7:14